



THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE

Statutory body under an Act of Parliament

(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो चीफ

15 जून, 2020

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने मनाया PCS डे

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने अपना पहला वर्चुअल PCS डे 15 जून 2020 को प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार-विमर्श की श्रृंखला के माध्यम से मनाया जिसमें देशभर के प्रख्यात वक्ताओं ने सम्बोधित किया। माननीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर शिरकत की एवं कॉरपोरेट मामलों के कॉर्पोरेट कानूनों में रिफार्म एवं अनुपालन में कंपनी सचिवों द्वारा किए गए जागरूकता पैदा करने में प्रयासों और भूमिका की सराहना की।

श्री ठाकुर ने तीन 'Es' पर जोर देते हुए कहा कि "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) और रोजगार (Employment) के अवसर सशक्त कंपनी सचिवों को तैयार करेंगे जिससे देश भी सशक्त (Empowered) होगा।

आईसीएसआई के आदर्श वाक्य की प्रशंसा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि "आईसीएसआई का आदर्श वाक्य - "सत्यम वचन धर्मम चर" - कंपनी सचिव में आईसीएसआई के मूल्यों की बात करता है जो जो देश को, विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने सकते हैं। जितनी दुनिया भारत में निवेश करेगी, उतनी ही देश में कंपनी सचिवों की मांग बढ़ेगी।

आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग ने इस अवसर पर कहा की नियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा संस्थान को भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन की आर्थिक महाशक्ति बनाने में कंपनी सचिवों की भूमिका को महत्व देने से हजारों प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया है।

सीएस गर्ग ने कहा की हमारी प्रतिबद्धता और समर्पण, महामारी के इस समय में भी कायम रही है, जब पूरा देश लोक-डाउन में था तब भी हमारे गवर्नेंस प्रोफेशनल ने कंपनियों एवं LLPs को नाम उपलब्धता के लिए (RUN) और कंपनियों के पंजीयन से संबंधित SPICe फॉर्म और माल और सेवा कर पहचान संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा के लिए आवेदन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पंजीकरण से संबंधित AGILE

फॉर्म और LLP के पंजीयन के लिए FiLLiP फॉर्म के आवेदन को मात्रा 1 से 2 दिन में ही प्रोसेस करवाने में अथक प्रयास किया हैं।

15 जून को कंपनी सचिवों के पेशे के लिए सबसे उल्लेखनीय दिनों में से एक है, क्योंकि 15 जून 1988 को कंपनी सचिवों को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वार्षिक रिटर्न प्रमाणित करने के लिए मान्यता दी गई थी।

एमसीए के संयुक्त सचिव श्री मनोज पांडे के साथ एक विशेष सत्र एवं दो पैनल डिस्कशन "इमर्जिंग इकोसिस्टम एंड बिज़नेस फ्रेमवर्क: रीडिन्वेंटिंग द प्रोफेशन", और "प्रोफेशन से एंटरप्रेन्योरशिप में: परिवर्तन" भी इस दौरान आयोजित किये गए।

एमसीए के संयुक्त सचिव श्री मनोज पांडे जी ने कहा की कंपनी सचिवों को अब कॉर्पोरेट सचिव के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि वे पारंपरिक अनुपालन अधिकारियों से परे भूमिका निभा रहे हैं और देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

व्यावसायिक उत्कृष्टता और समर्पण के साथ पेशे के लिए 15 जून को ऐतिहासिक दिन के रूप में याद रखते हुए, ICSI हर साल 15 जून को पीसीएस दिवस (PCS Day) के रूप में मनाता है।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय कार्य

ICSI

Tel: 011-45341022

Email:preeti.banerjee@icsi.edu